

**November 12, 2020**

To  
BSE Limited  
Corporate Relationship Department,  
1<sup>st</sup> Floor, New Trading Ring,  
Rotunda Building, P.J. Towers,  
Dalal Street, Fort, Mumbai -400001.

**Scrip Code: 513252**

**Subject: Submission of advertisement for publication of Unaudited Financial Results**

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 we are enclosing herewith copy of advertisement for Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2020 published in the Financial Express (English Newspaper) and Jansatta (Hindi Newspaper) on 12.11.2020 are enclosed.

Thanking You,

**Yours Faithfully**  
**Jay Ushin Limited**



**Amit Kithania**  
**Sr. Manager Finance &**  
**Company Secretary**  
**M.No 42447**

### KD LEISURES LIMITED

Formerly known as Vishvesham Investment & Trading Limited  
 Regd Off: B-702, 7th Floor, Neelkanth Business Park, Kiroli Village, Near Bus Depot, Vidyavihar Mumbai-85  
 CIN: L74899MH1981PLC272654 Email: kd.leisures@gmail.com

#### EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2020

(Rs. In Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended 31.03.2020 Audited
		30.09.2020 Unaudited	30.06.2020 Unaudited	30.09.2019 Unaudited	30.09.2020 Unaudited	30.09.2019 Unaudited	
1.	Total Income from Operations	0.58	33.50	12.84	34.08	25.90	39.22
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.85)	30.94	1.13	29.29	1.70	4.15
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.85)	30.94	1.13	29.29	1.70	4.15
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.65)	24.13	0.56	22.48	0.99	1.90
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(1.65)	24.13	0.56	22.48	0.99	1.90
6.	Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/-)	324	324	324	324	324	324
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	33.61	33.61	33.61	33.61	33.61	33.61
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -						
1.	Basic:	(0.05)	0.74	0.20	0.69	0.30	0.06
2.	Diluted:						

**Notes:**

- The financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) and SEBI circular dated 05th July, 2016.
- The above is an extract of the detailed format of unaudited standalone financial results for the quarter and half year ended 30th September, 2020 filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results (standalone and consolidated) for the quarter and half year ended 30th September, 2020 is available on the Company's website i.e. <http://www.kdgroup.co.in/under Investor Information section and on the stock exchange websites i.e. www.bseindia.com>
- The above results have been reviewed and recommended to the Board of Directors by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on 11th November, 2020. These results have been subjected to limited review by statutory auditors who have expressed an unqualified opinion.

For and on behalf of KD Leisures Limited  
 Sd/-  
 Ajay Kantilal Vora  
 Director (DIN: 06864950)

Date: 11/11/2020  
 Place: Mumbai

### ATLANTIC COMMERCIAL COMPANY LIMITED

Regd. Office: Unit No 2053, 2nd Floor, Plaza-II, Central Square, 20, Manohar Lal Khurana Marg, Bara Hindu Rao, Delhi - 110006  
 CIN: L51909DL1985PLC020372, Ph: 011-41539140  
 E-mail ID: limitedatlantic@gmail.com, Website: www.atlantic-commercial.com

#### EXTRACT OF UNAUDITED STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE SECOND QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2020

(₹ in Lakh, except per share detail)

SL	Particulars	Quarter ended			Six months ended on		Year ended 31.03.2020 Audited
		30.09.2020 Unaudited	30.06.2020 Unaudited	30.09.2019 Unaudited	30.09.2020 Unaudited	30.09.2019 Unaudited	
1.	Total income from operations	0.05	0.04	-	0.09	0.01	5.11
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(0.67)	(1.62)	(0.51)	(2.29)	(1.98)	1.62
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(0.67)	(1.62)	(0.51)	(2.29)	(1.98)	1.62
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(0.68)	(1.63)	(0.46)	(2.31)	(1.93)	1.18
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(0.68)	(1.63)	(0.46)	(2.31)	(1.93)	1.18
6.	Equity Share Capital	73.50	73.50	73.50	73.50	73.50	73.50
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous period	-	-	-	-	-	47.26
8.	Earnings per share (of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations) -						
1.	Basic (in ₹):	(0.10)	(0.22)	(0.06)	(0.32)	(0.26)	0.16
2.	Diluted (in ₹):	(0.10)	(0.22)	(0.06)	(0.32)	(0.26)	0.16

**Notes:** The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the second quarter and half year ended 30th September, 2020 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the second quarter and half year ended 30th September, 2020 are available on the websites of the Stock Exchange ([www.mseil.in](http://www.mseil.in)) and on the company's website ([www.atlantic-commercial.com](http://www.atlantic-commercial.com)).

For Atlantic Commercial Company Limited  
 Sd/-  
 Narendra Kishore Gaur  
 Chairman  
 DIN - 00168265

Place: New Delhi  
 Date: 11.11.2020

### THE DELHI SAFE DEPOSIT CO. LTD

CIN : L74899DL1937PLC000478  
 Regd Off: 86, Janpath, New Delhi-110001,  
 Ph: 011-43580400  
 Email: delseafe@dsdgroup.co.in ; Website: www.dsdgroup.co.in

#### EXTRACTS OF THE STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th SEPTEMBER, 2020

(Rs. In Lakhs)

S. No.	PARTICULARS	Quarterly	Year ended	Half Yearly ended
		30.09.2020 Unaudited Rs.	31.03.2020 Audited Rs.	30.09.2020 Unaudited Rs.
1.	Income from operations	155.91	907.50	290.24
2.	Net Profit/Loss for the period (before tax, exceptional items and/or extraordinary items)	(35.67)	142.70	(29.53)
3.	Net Profit/Loss for the period before tax (after exceptional items and/or extraordinary items)	(35.67)	142.70	(29.53)
4.	Net Profit/Loss for the period after tax (after exceptional items and/or extraordinary items)	(33.67)	106.32	(29.53)
5.	Total comprehensive income for the period (comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	(33.67)	106.32	(29.53)
6.	Paid up equity share capital (Face value: Rs.10/- per equity share)	522.30	522.30	522.30
7.	Earnings per share Basic & Diluted	-	2.04	-

**Notes:**

- The above financial results have been reviewed & recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 11/11/2020.
- The Auditors of the Company have carried out "Limited Review" of the above financial results for the quarter ended 30th September, 2020.
- The above results have been prepared in accordance with the Ind AS as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant Rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India.
- Previous periods figures have been regrouped/rearranged where necessary.

For The Delhi Safe Deposit Co.Ltd.  
 Sd/-  
 Vijay Kumar Gupta  
 Managing Director/CEO  
 DIN: 00243413

Place: New Delhi  
 Date: 11.11.2020

### UFLEX LIMITED

'A part of your daily life'  
 CIN : L74899DL1988PLC032166  
 Regd. Off.: 305, 3rd Floor, Bhanot Corner, Pamposh Enclave, Greater Kailash-I, New Delhi-110 048  
 Phone : +91-11-26440917, 26440925. Fax : +91-11-26216922. Website : www.uflexltd.com, Email : secretarial@uflexltd.com

#### EXTRACT OF CONSOLIDATED & STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30.09.2020

(₹ in Lacs)

Sl. No.	Particulars	Consolidated					
		Quarter Ended 30.09.2020 (Unaudited)	Quarter Ended 30.06.2020 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2019 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2020 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2019 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2020 (Audited)
1.	Total Income	223446	199754	187532	423200	385729	743162
2.	Net Profit / (Loss) before Tax for the Period	29961	26267	12331	56228	24099	48086
3.	Net Profit / (Loss) after Tax for the Period	22200	19654	9426	41854	18517	37088
4.	Net Profit / (Loss) after Non-Controlling interest for the period	22182	19645	9399	41827	18467	36982
5.	Total Comprehensive Income for the period	16625	25981	10175	42606	19984	40941
Total Comprehensive Income for the period attributable to							
	Owners of the Holding Company	16607	25972	10148	42579	19934	40835
	Non-Controlling Interest	18	9	27	27	50	106
6.	Equity Share Capital	7221	7221	7221	7221	7221	7221
7.	Other Equity, excluding Non-Controlling interest as shown in the Balance Sheet of previous year	461756	461756	422584	461756	422584	461756
8.	(EPS) (in ₹) (not annualized)						
	Basic :	30.72	27.21	13.02	57.92	25.57	51.21
	Diluted :	30.72	27.21	13.02	57.92	25.57	51.21

### JAY USHIN LIMITED

Regd. Office: G1-48, G.T. Karnal Road, Industrial Area Delhi- 110033  
 CIN: L52110DL1986PLC025118  
 E-mail: julinvestors@jushinindia.com | Website: www.jpmgroup.co.in  
 Tel: 91(124)-4623400 | Fax: +91(124)-4623403

#### STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2020

(Rs. in Lakhs)

S. No.	Particulars	Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended 31.03.2020 (Audited)
		30.09.2020 (Unaudited)	30.06.2020 (Unaudited)	30.09.2019 (Unaudited)	30.09.2020 (Unaudited)	
1.	Total Income from Operations	16,207.22	2,590.25	16,953.10	18,797.47	35,009.31
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	398.03	(2,313.91)	225.83	(1,915.88)	429.47
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	398.03	(2,313.91)	225.83	(1,915.88)	429.47
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	316.39	(2,214.74)	261.45	(1,898.35)	423.89
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	331.39	(2,229.74)	252.48	(1,898.35)	405.95
6.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value per Share Rs. 10/-Each)	386.45	386.45	386.45	386.45	386.45
7.	Reserves i.e other equity (as per balance sheet of previous accounting years)	-	-	-	5,705.91	7,498.15
8.	Earnings per equity share (EPS) (not annualised) (of Rs. 10/- each)					
a)	Basic	8.19	(57.31)	6.77	(49.12)	10.97
b)	Diluted	8.19	(57.31)	6.77	(49.12)	10.97

**Notes:-** The above is an extract of the detailed format of quarterly / Half yearly results filed with Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation 2015. The full format of the Quarterly / Half yearly Results are available on the Stock Exchange website [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the Company website [www.jpmgroup.co.in](http://www.jpmgroup.co.in)

For and on behalf of Board of Directors  
 For Jay Ushin Limited  
 (Ashwani Minda)  
 Managing Director  
 DIN: 00049966

Date: 11.11.2020  
 Place: Gurugram

### FEDERAL BANK

Your Perfect Banking Partner

LCRD Division/New Delhi  
 The Federal Towers,  
 Upper Ground floor, 2/2,  
 West Patel Nagar New Delhi-110008  
 Ph.No.011-40733980,40733978 Regd. Office. Always, Kerala

#### SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE ASSETS

**Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.**

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to **The Federal Bank Ltd.** (Secured Creditor), the Physical Possession of which was taken on 28.02.2020 by the Authorised Officer of The Federal Bank Ltd (Secured Creditor), will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on **02.12.2020**, for recovery of Rs.6,91,92,748/- (Rs.Six Crore Ninety One Lakh Ninety Two Thousand Seven Hundred and Forty Eight Only) plus costs and other charges due to The Federal Bank Ltd (Secured Creditor) as on the aforesaid date of sale from **1. Mr. Arvind Das S/o Mr. Prasanna Kumar Das (2) Mrs. Pratima Das W/o Mr. Prasanna Kumar Das (3) Mr. Prasanna Kumar Das S/o Mr. Nanda Purna Das** all residing at E-10/8, Vasant Vihar, New Delhi-110057. The Reserve Price is **Rs.7,20,00,000/- (Rs.Seven Crore Twenty Lakh Only)** and the earnest money deposit is **Rs.72,00,000/- (Rs.Seventy Two Lakh Only)**. Bids below the Reserve Price will be rejected immediately. This bids to be submitted should be above the Reserve Price.

All that piece and parcel of property bearing No.E-10/8 comprising of the entire Ground Floor with car parking, Front Lawn, Rear Courtyard, one Servant Quarter with one toilet under the common overhead water storage tank on the rear part of top terrace along with 30 percent undivided indivisible impartible ownership and entire basement with 10 percent undivided and indivisible rights in Plot No.E-10/8 admeasuring 450 Sq Yards at Vasant Vihar, Delhi-110057 bounded on the East by Plot No.7, West by Plot No.9, North by 15' wide service road, South by Street No.E-10.

The property will be sold by e-auction through the Bank's approved service provider **M/s. 4 Closure** under the supervision of the Authorised Officer of Federal Bank. E-auction tender document containing e-auction bid form, declaration, general terms and conditions of online auction sale are available in [website: https://www.bankauctions.in](https://www.bankauctions.in). The prospective bidders may avail online training on e-auction from **M/s 4 Closure**, Hyderabad helpline No. & email ID: **0814200062/65/66** & email - **info@bankauctions.in** and **Vikas Kumar-08142000809, 08076427383** & email - **vikas@bankauctions.in**. Bids in the prescribed format given in the Tender document shall be submitted "online" through the portal <https://www.bankauctions.in>. Bids submitted otherwise shall not be eligible for consideration. The EMD shall be remitted through Demand Draft, EFT/NEFT/RTGS to the Bank Account 21470051030003, IFSC FDRL0002147. The EMD to be paid is 10% of the Reserve Price of the properties which is refundable if the tender is not accepted. Last date and time for deposit of Bid along with EMD is 01.12.2020 upto 5 PM. Any Bid submitted after the said date and time will not be entertained.

The details of the property, date of inspection of the property, terms and conditions whereby the sale will be guided can be obtained from the Branch Manager at Branch Westend Colony-1,4, Convinient Shopping Centre, Westend, New Delhi-110021& at ND/LCRD Division, 2/2, Federal Towers, Upper Ground Floor, West Patel Nagar, New Delhi-110008 between 12 PM and 4 PM on any working day except Second and Forth Saturday upto 01.12.2020. The detailed terms and conditions pertaining to auction of the property is displayed in the branch premises at Branch Westend Colony, 1-4, Convinient Shopping Centre, Westend, New Delhi-110021& at ND/LCRD Division, 2/2, Federal Towers, Upper Ground Floor, West Patel Nagar, New Delhi-110008. Interested persons may contact the Branch Head, Westend Colony, Federal Bank on **Mob No :9447827222** and **LCRD Division on 9818646777, 9971564047, 8587822508 & Office No : 011-40733980,40733978,40733981**.

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in the following websites: **1. https://www.bankauctions.in** **2. https://www.federalbank.co.in**

Date : 11.11.2020 For The Federal Bank Ltd., Assistant Vice President  
 Place : NEW DELHI (Authorised Officer under SARFAESI Act)

### UFLEX LIMITED

'A part of your daily life'  
 CIN : L74899DL1988PLC032166  
 Regd. Off.: 305, 3rd Floor, Bhanot Corner, Pamposh Enclave, Greater Kailash-I, New Delhi-110 048  
 Phone : +91-11-26440917, 26440925. Fax : +91-11-26216922. Website : www.uflexltd.com, Email : secretarial@uflexltd.com

#### EXTRACT OF CONSOLIDATED & STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30.09.2020

(₹ in Lacs)

Sl. No.	Particulars	Standalone					
		Quarter Ended 30.09.2020 (Unaudited)	Quarter Ended 30.06.2020 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2019 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2020 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2019 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2020 (Audited)
1.	Total Income	120940	99209	102952	220149	208459	415236
2.	Net Profit / (Loss) before Tax for the Period	9516	6337	1996	15853	4271	18217
3.	Net Profit / (Loss) after Tax for the Period	6083	4112	1485	10195	2884	14327
4.	Total Comprehensive Income for the Period	6054	4240	1422	10294	2709	13120
5.	Equity Share Capital	7221	7221	7221	7221	7221	7221
6.	Other Equity, excluding Non-Controlling interest as shown in the Balance Sheet of previous year	218739	218739	207282	218739	207282	218739
7.	(EPS) (in ₹) (not annualized)						
	Basic :	8.42	5.69	2.06	14.12	3.99	19.84
	Diluted :	8.42	5.69	2.06	14.12	3.99	19.84

**Notes:** The above is an Extract of the detailed format of Consolidated & Standalone Financial Results for the Quarter and Half Year Ended on 30<sup>th</sup> September 2020, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full Format of the Standalone and Consolidated Results for the Quarter and Half Year Ended on 30<sup>th</sup> September 2020, are available on the Stock Exchange's website ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and Company's website ([www.uflexltd.com](http://www.uflexltd.com)).

For UFLEX LIMITED  
 Sd/-  
 (ASHOK CHATURVEDI)  
 Chairman & Managing Director  
 DIN - 00023452

Place : NOIDA  
 Date : 11.11.2020

### COVENTRY COIL-O-MATIC (HARYANA) LIMITED

Regd.Off. : 87th Km Stone, NH 8, Delhi Jaipur Road, Village: Salawas, Sangwari, Dist.: Rewari-123401 (Haryana).  
 CIN : L74999HR1988PLC030370  
 Website: www.coilmatic.com, Email: info@coilmatic.com, Phone No: 9896033299

#### EXTRACT OF OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED AND SIX MONTHS ENDED 30TH SEPTEMBER, 2020

(Rupees in Lacs)

SL No.	PARTICULARS	Three Months Ended			Six Months Ended		Year Ended 31-03-2020 Audited
		30-09-2020 Unaudited	30-06-2020 Unaudited	30-09-2019 Unaudited	30-09-2020 Unaudited	30-09-2019 Unaudited	
1	Total Income from operations	1,030.79	246.45	975.38	1,277.25	2,373.72	4,568.78
2	Net Profit / (Loss) for the period before tax (before and after extraordinary items)	76.63	(82.20)	(70.61)	(5.57)	(120.25)	(211.89)
3	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items)	76.63	(82.20)	(70.61)	(5.57)	(120.25)	(211.89)
4	Total comprehensive income for the period after tax	76.63	(84.20)	(69.61)	(7.57)	(116.06)	(219.74)
5	Equity Share Capital	450.80	450.80	450.80	450.80	450.80	450.80
6	Earning per share (EPS)(Face value of Rs.10/-each) Basic & Diluted	1.70	(1.82)	(1.57)	(0.12)	(2.67)	(4.70)

**NOTES:**

- The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on November 11, 2020. The Limited Review for the quarter ended and Six month ended 30<sup>th</sup> September, 2020, has been carried out by the Statutory Auditors, as required under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulation, 2015.
- Figure of the previous periods have been regrouped /rearranged, wherever necessary.

For Coventry Coil-O-Matic (Haryana) Ltd.  
 Managing Director  
 (DIN No. 00159855)

Place : Rewari  
 Date : 11-11-2020

### U. P. HOTELS LTD.

CIN: L55101DL1961PLC017307  
 Regd. Office: 1101, Surya Kiran, 19, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001  
 Tel: 011-23722596-98, Fax: 011-23312990  
 Email: clarkssuryakiran@yahoo.co.in, Website: www.hotelclarks.com

#### EXTRACTS OF STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED 30<sup>th</sup> SEPTEMBER, 2020

(Rs. in Lakh except earning per

## देहरादून समेत छह शहरों में दो घंटे के लिए चला सकेंगे हरित पटाखे

देहरादून, 11 नवंबर (भाषा)।

उत्तराखंड के छह नगरों के लोगों को दिवाली, गुरु पर्व और छठ के अवसर पर दो घंटों के लिए हरित पटाखे चलाने की अनुमति होगी।

प्रदेश के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि बुधवार को यहां जारी यह आदेश देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रूड़पुर और काशीपुर के नगरीय क्षेत्रों में लागू होगा। इन शहरों की सीमाओं में रहने वाले लोग

दिवाली और गुरुपर्व पर रात आठ से दस बजे तक और छठ पर सुबह छह से आठ बजे तक हरित पटाखे चला सकेंगे।

इस बीच मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने लोगों से दिवाली पर कम से कम पटाखों का इस्तेमाल करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा, 'मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूँ कि पटाखों का कम से कम इस्तेमाल करें। इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।'

## छत्तीसगढ़ में 50 फीसद क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा घर

रायपुर, 11 नवंबर (भाषा)।

छत्तीसगढ़ में मार्च महीने से बंद सिनेमा घरों और मल्टीप्लेक्स को 50 फीसद दर्शक क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। सिनेमा घरों और मल्टीप्लेक्स में शनिवार या रविवार से फिल्मों का प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। बुधवार को इसे लेकर जिलाधिकारी ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी की।

राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि रायपुर के जिलाधिकारी एस भारती दासन ने शासन के आदेश के अनुसार निषिद्ध क्षेत्र के

वाहर सभी सिनेमा घरों और मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति सशर्त दी गई है। इन शर्तों के तहत हॉल में व्यक्तियों के बैठने की संख्या की क्षमता के आधार पर अधिकतम 50 फीसद लोगों को ही बैठने की अनुमति होगी और हॉल में सामाजिक दूरी के नियमों का पालन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि आदेश के अनुसार बंद स्थल में एयर कंडीशनिंग उपकरणों की उपलब्धता की स्थिति में तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में होनी चाहिए।

## पुलिस से मारपीट करने के मामले में चार हिरासत में

धार (मध्यप्रदेश), 11 नवंबर (भाषा)।

मध्यप्रदेश में धार जिला मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूर गंधवानी थाना क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने पुलिस के एक गश्ती दल पर हमला कर दो पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया। फिर नके हथियार लेकर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को हिरासत में लिया है।

जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि घटना गंधवानी कस्बे के पास मंगलवार रात को हुई। जब गश्त कर रहे दो

पुलिसकर्मियों ने शराब पी रहे कुछ लोगों को रोका और उनसे पूछताछ की। इस दौरान शराबियों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। मारपीट में पुलिस का एक उप निरीक्षक और एक प्रधान आरक्षक घायल हो गए।

उन्होंने बताया कि बदमाशों ने पुलिसकर्मियों से एक राइफल, एक रिवाल्वर और एक मोबाइल फोन छीन कर वहां से फरार हो गए। घटना में शामिल छह हमलावरों की पहचान कर ली गई है और उनमें से चार को हिरासत में लिया गया है।

अरावली सिक्योरिटीज एण्ड फाइनांस लिमिटेड		CIN: L67120HR1980PLC039125				
पंजी. कार्यालय: प्लॉट नं. 136, 4था तल, गड्डर हाउस, सेक्टर 44, गुडगांव, -122003, हरियाणा		ईमेल: info@aravalsecurities.com, वेबसाइट: www.aravalsecurities.com				
30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिए स्टैटिस्टिकल अर्न्तकृतित विवरण परिणामों के विवरणों का सार		(रु. लाखों में)				
क्र.सं.	विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त छमाही		समाप्त वर्ष
		30.09.2020 (अर्न्तकृतित)	30.06.2020 (अर्न्तकृतित)	30.09.2019 (अर्न्तकृतित)	30.09.2020 (अर्न्तकृतित)	
1.	कुल आय	96.42	15.99	465.67	112.41	541.95
2.	कर से पूर्व आय के लिए शुद्ध लाभ (हानि) (वित्तीय एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	51.12	(16.61)	416.02	34.51	448.85
3.	कर से पूर्व आय के लिए शुद्ध लाभ (हानि) (वित्तीय एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	51.12	(16.61)	416.02	34.51	448.85
4.	कर से बाद आय के लिए शुद्ध लाभ (हानि) (वित्तीय एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	52.53	(16.61)	414.15	35.92	446.98
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु 'कर के बाद' लाभ/हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल	0.05	0.07	—	0.12	(0.32)
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	1515.38	1515.38	1515.38	1515.38	1515.38
7.	आशुत (पूर्व वर्ष के अर्न्तकृतित तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन अर्न्तकृतित के अतिरिक्त आशुत)	—	—	—	—	(1669.91)
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का)	रु. 0.35	रु. (0.11)	रु. 2.74	रु. 0.24	रु. 2.96
	मूल:	रु. 0.35	रु. (0.11)	रु. 2.74	रु. 0.24	रु. 2.96
	तरल:	रु. 0.35	रु. (0.11)	रु. 2.74	रु. 0.24	रु. 2.96

टिप्पणी:

- उपरोक्त परिणामों को इंड एस 34 ("अंतिम वित्तीय रिपोर्टिंग") में निर्दिष्ट पारदर्शिता एवं मानकों के निर्धारण का पालन करते हुए सम्मती अर्न्तकृतित, 2013 ("अंतिम रिपोर्ट") की भांति 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट पारदर्शिता लेखा सार ("इंड एस 34") तथा भारत में सामान्य स्वीकृत अर्थ मानकों तथा लेखा निर्धारण के अनुसार तथा संबंधी (सूचीबद्ध वित्तीय एवं प्रकटन अधिनियम, 2015 ("सूचीबद्ध वित्तीय") के वित्तीय नमूने 33 के अनुसार तैयार किया गया है।
- 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिए कम्पनी के उक्त अर्न्तकृतित परिणामों की ऑडिट कमीटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 11 नवम्बर, 2020 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक महेश द्वारा अनुमोदित किया गया।
- सेबी (सूचीबद्ध वित्तीय एवं प्रकटन अधिनियम, 2015 के नियम 33 के अंतर्गत) अर्न्तकृतित, 2015 के वित्तीय नमूने 33 के अंतर्गत 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के वित्तीय परिणामों का खरूप मूल में सार्वजनिक ऑडिटरी द्वारा समीक्षा की गई है।
- आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत करदान का प्रबंधन समग्र रूप से वर्ष के लिए प्रत्याशित कर-योग्य आय के आधार पर किया गया है।
- 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही के अर्न्तकृतित 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त छमाही तथा 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के संदर्भ में अर्न्तकृतित ऑडिटिंग, जो सौमित्र समीक्षा के अधीन है, के बीच के अंतर के रूप में संतुलक अर्न्तकृतित है।
- वर्तमान में कम्पनी का प्रचालन एक मात्र उच्च अर्न्तकृतित वित्तीय तथा अन्य परामर्श सेवाओं के परामर्श तह ही सीमित है।
- उसे न्यूनतम घनत्व के लिये जहाँ भी जरूरी होना, पूर्व अवधि/वर्ष के अर्न्तकृतित पुनर्मूल्यांकन/पुनर्व्यवस्थापन किया गया है।

बोर्ड के आदेश से  
अरावली सिक्योरिटीज एण्ड फाइनांस लिमिटेड के लिए  
हस्ताक्षर:  
रजत कुमार पौडर  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक: 11 नवम्बर, 2020  
स्थान: गुडगांव

जय जुश्निन लिमिटेड		पंजीकृत कार्यालय: जीआई-48, जी.डी. कर्मल रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110033				
सीआईडीसी: L52110DL1986PLC025118		ई-मेल: julinvestors@jushinin.com; वेबसाइट: www.jpmgroup.co.in				
सूचनांक: 91 (124)-4623400   फ़ैक्स: 91 (124)-4623403		30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए एकल अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण				
क्र.सं.	विवरण	तिमाही समाप्त		छमाही समाप्त		वर्ष समाप्त
		30.09.2020 (अलेखापरीक्षित)	30.06.2020 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2019 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2020 (अलेखापरीक्षित)	
1.	परिचालनों से कुल आय	16,207.22	2,590.25	16,953.10	18,797.47	35,009.31
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशेष और/या असाधारण मदों से पूर्व)	398.03	(2,313.91)	225.83	(1,915.88)	429.47
3.	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (वित्तीय और/या असाधारण मदों के बाद)	398.03	(2,313.91)	225.83	(1,915.88)	429.47
4.	कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (वित्तीय और/या असाधारण मदों के बाद)	316.39	(2,214.74)	261.45	(1,898.35)	423.89
5.	अवधि के लिए कुल समग्र आय [अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर पश्चात) और अन्य समग्र आय (कर पश्चात) सम्मिलित]	331.39	(2,229.74)	252.48	(1,898.35)	405.95
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु. 10/- प्रति शेयर)	386.45	386.45	386.45	386.45	386.45
7.	आशुत निधि अर्थात् अन्य इक्विटी (पूर्व लेखा वर्षों के तुलनापत्र के अनुसार)	—	—	—	5,705.91	7,498.15
8.	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (ईपीएस) (वार्षिकीकृत नहीं) (रु. 10/- प्रत्येक)	8.19	(57.31)	6.77	(49.12)	10.97
	क) मूल	8.19	(57.31)	6.77	(49.12)	10.97
	ख) तरल	8.19	(57.31)	6.77	(49.12)	10.97

नोट:  
ऊपर सेबी (सूचीबद्ध और अन्य प्रकटन आवश्यकताएं) नियमावली, 2015 के नियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में पेश किए गए तिमाही/छमाही परिणामों का सार है। तिमाही/छमाही परिणामों का विस्तृत पूर्ण रूप कम्पनी की वेबसाइट [www.jpmgroup.co.in](http://www.jpmgroup.co.in) और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के लिए और चर्चों की ओर से  
दिनेश चरण सिंह  
अध्यक्ष निदेशक (अखिरी मित्र)

दिनांक: 11.11.2020  
स्थान: गुडगांव

## झारखण्ड सरकार पेयजल एवं स्वच्छता विभाग पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, गुमला।

### ई-प्रोक्तोरमेंट अल्पकालीन निविदा सूचना

निविदा आमंत्रण सूचना सं - DWSD/Gumla/CC Karam toli/14/2020-21 दिनांक - 11.11.2020

1	कार्य का नाम :- गुमला जिला के प्रखण्ड परगवीर अलबर्ट एका जारो के ग्राम सी सी 0 करम टोली एवं निकट वर्ती ग्रामों में ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण से सम्बन्धित विस्तृत सर्वे, विभिन्न अवयवों के डिजाई एवं ड्राईंग कार्य, आर 0 सी 0 इंटेकवेल्-सह-पम्प हाउस, आर 0 सी 0 गैंगवे, मैथरनमरिक्त जलशोध संस्थान, आर 0 सी 0 जलमीनार, स्टॉक क्वार्टर, चहारदिवारी आदि का निर्माण कार्य, रॉ एवं शुद्ध राइजिंग एवं वितरण मेन हेतु डी 0 आइ 0 पाइपों की आपूर्ति तथा बिजाने जोड़ने का कार्य, वी 0 टी 0 एवं सेन्ट्रीफ्यूगल पम्पस आदि की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन एवं पांच वर्षों तक परिचालन एवं सम्पोषण एवं अन्य सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य 'टर्न की' के आधार पर। कल्याण विभाग से स्वीकृत योजना 20-21	
2	प्राक्कलित राशि :-	1484.35650 लाख रुपये
3	अग्रिम की राशि :-	16.55 लाख रुपये
4	कार्य पूर्ण करने की अवधि :-	24 माह + 3 माह for Trial Run for Rectification of defects etc.
5	वेबसाइट पर निविदा प्रकाशन की तिथि :-	18.11.20, 02.00 बजे अपराहन तक।
6	प्री बीड मीटिंग की तिथि :-	25.11.20, 03.00 अपराहन में अभियन्ता प्रमुख का कार्यालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग रांची
7	बीड प्राप्ति की अन्तिम तिथि एवं समय :-	03.12.2020, 5.00 बजे अपराहन तक।
8	बैंक गारंटी एवं परिमाण विपत्र का मूल्य जमा करने की अन्तिम तिथि, समय एवं स्थान -05.12.2020, 2.00 बजे अपराहन तक। (1) कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल गुमला के कार्यालय में (2) अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल गुमला के कार्यालय में (3) क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का कार्यालय, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल रांची के कार्यालय में	
9	निविदा के तकनीकी बीडों के खोलने की तिथि एवं समय :-	05.12.2020, 4.30 बजे अपराहन से
10	निविदा के वित्तीय बीडों के खोलने की तिथि :-	बाद में सूचित किया जाएगा
11	निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी एवं कार्यालय का पता :-	कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, गुमला।
12	प्रोक्तोरमेंट कार्यालय का सम्पर्क नं०	06524-223058
13	ई प्रोक्तोरमेंट सेल का हेल्प लाईन नं०	7488491963

नोट :- वैसे संवेदक जो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में समुचित श्रेणी में निर्धारित नहीं है, वे भी निविदा में भाग ले सकते हैं परन्तु कार्यालय के 80 दिनों के अन्दर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से समुचित श्रेणी में निबंधन करवा लेना अनिवार्य होगा। ऐसी स्थिति में उन्हें विभागिय पत्रांक 676(CDO) दिनांक 20.10.2012 के अनुसार इस आधार का राश्व-पत्र देना अनिवार्य होगा कि राज्यान्तर्गत किसी भी थाने में उनके विरुद्ध कोई अपराधिक मामला दर्ज नहीं है और वे निविदा के अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हैं। प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है तदनुसार अग्रदान की राशि देय होगी।  
विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://jharkhandtenders.gov.in> से प्राप्त की जा सकती है।

कार्यपालक अभियन्ता,  
पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल गुमला

PR 235684 (Drinking Water and Sanitation) 20-21 (D)

unitech		UNITECH LIMITED			
CIN: L74899DL1971PLC009720		Regd. Office: Basement, 6, Community Centre, Saket, New Delhi-110 017			
Tel: 011-26857331; Fax: 011-26857338; E-mail: share.dept@unitechgroup.com Web: www.unitechgroup.com		Extract of Un-audited Consolidated Financial Results for the Quarter and Half year Ended 30 <sup>th</sup> September, 2019			
		(₹ in Lacs except EPS)			
Sl No.	Particulars	Quarter Ended 30.09.2019 (Un-audited)	Quarter Ended 30.09.2018 (Un-audited)	Half Year Ended 30.09.2019 (Un-audited)	Year Ended 31.03.2019 (Audited)
1	Total income from operations (Net)	50,985.23	26,102.45	79,823.86	1,33,746.83
2	Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	(11,818.65)	(16,022.76)	(22,969.63)	(79,284.87)
3	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (After Extraordinary items)	(11,818.65)	(16,022.76)	(22,969.63)	(79,284.87)
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(11,631.30)	(16,520.61)	(22,830.96)	(83,874.28)
5	Equity Share Capital	52,326.02	52,326.02	52,326.02	52,326.02
6	Earnings Per Share for continuing operations (before/after extraordinary items) # (of Rs. 2/- each) Basic and Diluted (Rs.) * (Not Annualized):	(0.45)*	(0.61)*	(0.90)*	(3.06)
7	Earnings Per Share for discontinued operations (before/after extraordinary items) # (of Rs. 2/- each) Basic and Diluted (Rs.) * (Not Annualized):	0.01*	0.01*	0.02*	0.04
8	Earnings Per Share for continuing & discontinued operations (before/after extraordinary items) # (of Rs. 2/- each) Basic and Diluted (Rs.) * (Not Annualized):	(0.44)*	(0.60)*	(0.88)*	(3.02)
# Extra Ordinary Items - NIL					
Notes:					
i) The above Financial Results (prepared on consolidated basis) have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of Unitech Limited at their respective meetings held on 9 <sup>th</sup> November 2020.					
ii) The Hon'ble Supreme Court vide its order dated 20 <sup>th</sup> January 2020 has, inter alia, given directions that the Board of Directors of Unitech Limited, as existing on that date, be superseded with immediate effect in order to facilitate the taking over of management by the new Board of Directors constituted in terms of the proposal submitted by the Union Government of India. References have been made hereunder to the Resolution Framework (RF) for Unitech group which has been prepared under the directions of the Board of Directors of Unitech Limited appointed by the Central Government pursuant to the aforesaid order of the Hon'ble Supreme Court and approved by the Board of Directors in their Meeting held on June 17, 2020.					
iii) The limited review report of the statutory auditors on the unaudited Consolidated financial results of Unitech Limited for the quarter and half year ended September 30, 2019, contains disclaimer of conclusions on certain matters which is being summarised below:-					
a) We draw attention to Regulation 33(3)(h) of the Regulations, wherein the Company has failed to ensure that, for the purposes of quarterly consolidated financial results, at least eighty percent of each of the consolidated revenue, assets and profits, respectively, shall have been subjected to limited review by their respective auditors. Only one subsidiary viz. Unitech Power Transmission Limited (UPTL), out of 217 subsidiaries & 1 foreign branch, has been subjected to limited review by its auditors, which does not fulfill the criteria required as per regulation 33(3)(h) mentioned above. The Company has provided us with the signed financials of UPTL and the management results/financials of the remaining subsidiaries/foreign branch. Except for reviewing the financials of UPTL, no limited review of the remaining subsidiaries/foreign branch has been carried out by us, since only management results/financials have been provided to us and further, these have also not been reviewed by their respective auditors. Here we would like to mention that a number of directors have resigned in a many of the subsidiaries, resulting in 153 subsidiaries having less than the minimum number of directors as required under the Companies Act 2013, and thus rendering the conducting of board meetings and adoption of accounts unfeasible. We are unable to comment on the veracity of the un-reviewed management results/financials provided as mentioned above, and hence we are unable to express a conclusion on the consolidated financial results.					
The management, in response of the above qualification, states the following:- For reasons beyond management control these required audits could not be done					
b) The holding Company had received a 'cancellation of lease deed' notice from Greater Noida Industrial Development Authority ("GNIDA") dated 18 November 2015. As per the notice, GNIDA cancelled the lease deed in respect of Residential/Group Housing plots on account of non-implementation of the project and non-payment of various dues amounting to Rs. 105,483.26 lakhs. As per the notice, and as per the relevant clause of the bye-laws/contractual arrangement with the Company, 25% of the total dues amounting to Rs. 1,38,93.42 lakhs were to be forfeited out of the total contract paid till date. The holding Company has incurred total expenditure of Rs. 21,39,62.69 lakhs [comprising of (i) the amounts paid for land dues and stamp duty Rs. 34,221.90 lakhs, (ii) the balance portions of the total amounts payable, including contractual interest accrued till 31 <sup>st</sup> March 2016, and (iii) other construction costs amounting to Rs. 8,06,48.89 lakhs]. The said land is also mortgaged and the holding Company has registered such mortgage to a third party on behalf of lender for the Non-Convertible Debenture (NCD) facility extended to the Company and, due to default in repayment of these NCDs, the debenture holders have served a notice to the Company under section 13(4) of the SARFAESI Act and have also taken possession of this land. The holding Company had contractually entered into agreements to sell with 397 buyers and has also received advances from such buyers amounting to Rs. 6,682.10 lakhs (net of repayment). No contract revenue has been recognized on this project. The erstwhile Management had written a letter to GNIDA dated 11 December 2015, wherein it had stated that the cancellation of the lease deed was wrong, unjust and arbitrary. Further, the said erstwhile management had also described steps taken for implementation of the project and valid business reasons due to delays till date. Further, the said erstwhile management had also proposed that in view of the fact that third party interests have been created by the holding Company in the allotted land, by allotting plots to different allottees, in the interest of such allottees, GNIDA should allow the Company to retain an area of approximately 25 acres out of the total allotted land of approximately 100 acres and that the amount paid by the Company till date be adjusted against the price of the land of 25 acres and remaining surplus amount may be adjusted towards dues of other projects of the Company under GNIDA. GNIDA has, in the meanwhile, in terms of the Order of the Hon'ble Supreme Court dated 18.09.2018, deposited on behalf of the Company, an amount of Rs. 74,36.35 lakhs (Rs. 6,682.10 lakhs and interest @ 6% on the principal amount of Rs. 6,682.10 lakhs), out of the monies paid by the Company, with the registry of the Hon'ble Supreme Court. Subsequent to the end of the quarter, GNIDA has adjusted Rs. 9,200.00 lakhs of Unitech group's liabilities towards the holding Company's other projects with GNIDA and forfeited Rs. 1,38,93.42 lakhs. The holding Company had paid a sum of Rs. 34,221.90 lakhs, including Rs. 49,34.95 lakhs of stamp duty on the land for the said land. The matter in respect of the land is still pending before the Hon'ble High Court of Allahabad, and pending the final disposal, the Company has, subsequently, shown the amount of Rs. 18,338.80 lakhs as recoverable from GNIDA in its books of account. Further, the Company is also carrying other construction costs amounting to Rs. 8,06,48.89 lakhs in respect of the projects to come up on the said land. The impact on the accounts viz. inventory, projects in progress, customer advances, amount payable to or receivable from GNIDA, cannot be ascertained, since the matter is still sub-judice, as mentioned hereinabove, vis-à-vis dues of the Company, and hence we are unable to express a conclusion on this matter.					
The management, in response of the above qualification, states the following:- The Management is hopeful that its stand shall be vindicated in the court of law and there shall be no adverse impact, other than the ones already disclosed shall be there as such.					
c) Confirmations/reconciliations are pending in respect of amounts deposited by the Company with the Hon'ble Supreme Court. As per books of account an amount of Rs. 33,615.60 lakhs deposited with the Hon'ble Supreme Court Registry ("Registry") is outstanding as at 30 <sup>th</sup> September 2019. Certain transactions have been made from the Registry viz. payments mainly towards refunds given to some of the Company's home buyers, payments made to fixed deposit holders, payments made to ex-employees, amounts paid to the Company for meeting construction expenses, payments made to forensic auditors out of interest accrued, and amounts paid to the amicus curiae towards reimbursement of expenses. Due to non-availability of any statement of account from the Registry, these transactions have been recorded by the Company in its books of account on the basis of limited information available and the amount of Rs. 33,615.60 lakhs has been accounted for under the head "Other Assets" in the unaudited consolidated financial statements. Moreover, there would be significant amount of interest accrued on the aforesaid deposits which are not accounted for in the books due to non-availability of details. The management has requested the learned amicus curiae to provide the relevant bank statement and balance confirmations. The final reconciliation can take place only after receipt of the same. In the absence of detailed statement of transactions and confirmation of balance from the Registry, we are unable to comment on the completeness and correctness of amounts outstanding with the Registry and of the ultimate impact these transactions would have on the unaudited consolidated financial results of the Company, and hence we are unable to express a conclusion on this matter.					
The management, in response of the above qualification, states the following:- It is a matter of reconciliation with the Registry of the Hon'ble Supreme Court. The company is trying to have better information and there shall be no adjustment required in the statement of Profit & Loss.					
d) An amount of Rs. 102,046.88 lakhs is outstanding as at 30 <sup>th</sup> September 2019 (Previous year ended 31 <sup>st</sup> March 2019 - Rs. 107,631.33 lakhs) which is comprised of trade receivables pertaining to sale of land, properties, finished goods, commercial plots/properties of various kinds. Out of the total trade receivables, which include long term receivables amounting to Rs. 24,275.88 lakhs, in our opinion such receivables amounting to Rs. 18,747.25 lakhs as at 30 <sup>th</sup> September 2019 (Previous year ended 31 <sup>st</sup> March 2019 - Rs. 18,600.54 lakhs) are doubtful of recovery. However, we are unable to ascertain whether all of the long overdue outstanding trade receivables are fully recoverable/adjustable, since the outstanding balances as at 30 <sup>th</sup> September 2019 are outstanding/remain unadjusted for a long period of time. Based on our assessment and review procedures performed, in our opinion, management ought to provide/accrete for the diminution for the aforesaid trade receivables amounting to Rs. 18,747.25 lakhs in these quarterly results. The recovery of such trade receivables are dependent on the sale of land held by these debtors and their realize-ability, which, looking at the size of the land held by these debtors, their sale-ability, and uncertainty as to whether such land can be realized at their respective circle rates or more, it is indeterminate as to what extent of further losses can be expected, and hence we are unable to express a conclusion on this matter. Further, considering the above, the measurement of expected credit loss on the trade receivables cannot be applied.					
The management, in response of the above qualification, states the following:- The Hon'ble Supreme Court vide its order dated 20 <sup>th</sup> January 2020 replaced the then board of directors of the company and replaced it with current board of directors (hereinafter called the new management). The new management in pursuit to identify and recover the investments and advances made by the earlier management has sought the co-operation from the erstwhile chairman and managing directors. The response of the erstwhile chairman and managing directors is awaited and till then it would not be wise on the part of the new management to diminish the value of these investments and advances.					
e) The holding Company has failed to repay deposits accepted by it including interest thereon in respect of the following deposits:					
		Unpaid matured deposits (Principal amount) as at 31 <sup>st</sup> March, 2019 (Rs. lakhs)	Principal paid during the current period (Rs. lakhs)	Unpaid matured deposits (Principal amount) as at 30 <sup>th</sup> September, 2019 (Rs. lakhs)	
		Particulars			
		Deposits that have matured on or before March 31, 2017	53,014.17	32.31	52,9